



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012024-251155
CG-DL-E-04012024-251155

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 4, 2024/पौष 14, 1945

No. 21]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 4, 2024/PAUSHA 14, 1945

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2024

सा.का.नि. 24(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो [सर्वेक्षण अधिकारी, सहायक सर्वेक्षण अधिकारी और वरिष्ठ तकनीकी सहायक (सर्वेक्षण)] भर्ती नियम, 2020 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो [सर्वेक्षण अधिकारी, सहायक सर्वेक्षण अधिकारी और वरिष्ठ तकनीकी सहायक (सर्वेक्षण)] भर्ती (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो [सर्वेक्षण अधिकारी, सहायक सर्वेक्षण अधिकारी एवं वरिष्ठ तकनीकी सहायक (सर्वेक्षण)] भर्ती नियम, 2020 में, अनुसूची में, सर्वेक्षण अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने स्तम्भ (11) में, -

(i) "प्रोन्नति" उप-शीर्षक के अधीन, "तीन वर्ष" शब्द के स्थान पर, "पांच वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "प्रोन्नति" उप-शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात और टिप्पण से पूर्व, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"टिप्पण 1: खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो [सर्वेक्षण अधिकारी, सहायक सर्वेक्षण अधिकारी और वरिष्ठ तकनीकी सहायक (सर्वेक्षण)] भर्ती (संशोधन) नियम, 2023 की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स (रु. 44900-142400) में स्तर 7 में सहायक सर्वेक्षण अधिकारी के फीडर पद के संबंध में पात्रता सेवा तीन वर्ष जारी रहेगी।";

(iii) "टिप्पण" को "टिप्पण 2" के रूप में संख्यांकित किया जाएगा।

[फ़ा. सं. 22/1/2023-एम.III]

संजय लोहिया, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 728(अ) तारीख 13 नवंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2024

G.S.R. 24(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines [Survey Officer, Assistant Survey Officer and Senior Technical Assistant (Survey)] Recruitment Rules, 2020, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines [Survey Officer, Assistant Survey Officer and Senior Technical Assistant (Survey)] Recruitment (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines [Survey Officer, Assistant Survey Officer and Senior Technical Assistant (Survey)] Recruitment Rules, 2020, in the Schedule, against serial number 1 relating to the post of Survey Officer, in column (11), -

- (i) under the sub-heading "Promotion", for the words "three years", the words "five years" shall be substituted;
- (ii) after sub-heading "Promotion" and the entries relating thereto and before Note, the following Note shall be inserted, namely: -

"**Note 1:** The eligibility service shall continue to be three years in respect of incumbents holding the feeder post of Assistant Survey Officer in level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) on regular basis on the date of notification of the Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines [Survey Officer, Assistant Survey Officer and Senior Technical Assistant (Survey)] Recruitment (Amendment) Rules, 2023.";

- (iii) the "Note" shall be numbered as "Note 2".

[F. No. 22/1/2023-M.III]

SANJAY LOHIYA, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R 728(E), dated the 13th November, 2020.